



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264377
CG-DL-E-04072025-264377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]
No. 473]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2025/आषाढ़ 11, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2025/ASHADHA 11, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2025

नं. एल-1/260/2021/सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 है।

1.2 ये विनियम 01.07.2025 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 8 (विचलन के लिए प्रभार) का संशोधन:

2.1 मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड (8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(8) अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार -

(1) अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार, इस विनियम के खण्ड (2) और खण्ड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर शून्य होंगे:

- (2) थर्मल उत्पादन स्टेशनों के मामले में, यूनिट के प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा होने तक ग्रिड में अंतःक्षेपित अशक्त विद्युत रु.2.86/किलोवाट घण्टे की सीमा के अध्यक्षीन, प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए विचलनों के लिए प्रभारों की @ सामान्य दर अदा की जाएगी।
- (3) यदि अशक्त विद्युत ग्रिड कोड में यथाविनिर्दिष्ट सफल ट्रायल रन के बाद अनुसूचित की जाती है तो अनुसूचित अशक्त विद्युत पर विचलन के लिए प्रभार सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता, यथास्थिति, के लिए यथा लागू होंगे।
- (4) इस विनियम के खण्ड (2) और खण्ड (3) के उपबंधों के होते हुए भी, जब प्रणाली फ्रिक्वेंसी, एफ > 50.05 हर्ट्ज़ है तो अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए या सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता, यथास्थिति, द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से सफल ट्रायल रन के बाद अनुसूचित अशक्त विद्युत के विचलन के लिए प्रभार शून्य होंगे।”

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./206/2025-26]

नोट:

- (i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2024 दिनांक 21.08.2024 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 642 के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।
- (ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 24.12.2024 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 1030 के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2025

No. L-1/260/2021/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely: -

1. Short Title And Comments

- 1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- 1.2 These regulations shall come into force with effect from 01.07.2025.

2. Amendment Of Regulation 8 (Charges For Deviations) Of The Principal Regulations:

- 2.1 Clause (8) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(8) Charges for injection of infirm power -

- (1) The charges for injection of infirm power shall be zero, except in cases specified under clauses (2) and (3) of this Regulation:
- (2) In case of thermal generating stations, the infirm power injected into the grid from the date of first synchronization of the unit up to the successful completion of the trial run shall be paid @ Normal Rate of Charges for Deviations for each time block, subject to a ceiling of ₹ 2.86/kWh.

- (3) If infirm power is scheduled after a successful trial run as specified in the Grid Code, the charges for deviation over the scheduled infirm power shall be as applicable for a general seller or WS seller, as the case may be.
- (4) Notwithstanding the provisions of clauses (2) and (3) of this Regulation, when the system frequency, $f > 50.05\text{Hz}$, the charges for injection of infirm power or for deviation of scheduled infirm power after the successful trial run by way of over injection by a general seller or WS seller, as the case may be, shall be zero.”

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.
[Advt.-III/4/Exty./206/2025-26]

Note:

- (i) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 were published in Part III, Section 4, No. 642 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 21.08.2024.
- (ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (First Amendment) Regulations, 2024 were published in Part III, Section 4, No. 1030 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 24.12.2024.